



NEERAJ®

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945)

B.H.I.E.-142

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Ved Prakash Sharma



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office:

1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Published by:



NEERAJ PUBLICATIONS

(Publishers of Educational Books)

Retail Sales Office: 1507, First Floor, Nai Sarak, Delhi - 6 | Mob.: 8510009872, 8510009878

E-mail : info@neerajbooks.com Website : www.neerajbooks.com

© Copyright Reserved with the Publishers only.

Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only

Typesetting by: Competent Computers, Printed at: Novelty Printing Press

Disclaimer/T&C

1. For the best & up-to-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board/University.
3. These books are prepared by the author for the help, guidance and reference of the student to get an idea of how he/she can study easily in a short time duration. Content matter & Sample answers given in this Book may be Seen as the Guide/Reference Material only. Neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss due to any mistake, error or discrepancy as we do not claim the Accuracy of these Solutions/Answers. Any Omission or Error is highly regretted though every care has been taken while preparing, printing, composing and proofreading of these Books. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading, etc., are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to the publishers notice which shall be taken care of in the next edition and thereafter as a good gesture by our company he/she would be provided the rectified Book free of cost. Please consult your Teacher/Tutor or refer to the prescribed & recommended study material of the university/board/institute/ Govt. of India Publication or notification if you have any doubts or confusions regarding any information, data, concept, results, etc. before you appear in the exam or Prepare your Assignments before submitting to the University/Board/Institute.
4. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
5. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
6. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book on any Website, Web Portals, any Social Media Platforms – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn etc. and also on any Online Shopping Sites, like – Amazon, Flipkart, eBay, Snapdeal, Meesho, Kindle, etc., is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity of any NEERAJ BOOK in Printed Book format (Hard Copy), Soft Copy, E-book format by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
7. The User agrees Not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit for any commercial purposes, any portion of these Books without the written permission of the publisher. This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.
8. All material prewritten or custom written is intended for the sole purpose of research and exemplary purposes only. We encourage you to use our material as a research and study aid only. Plagiarism is a crime, and we condone such behaviour. Please use our material responsibly.
9. All matters, terms & disputes are subject to Delhi Jurisdiction only.

Get books by Post & Pay Cash on Delivery :

If you want to Buy NEERAJ BOOKS by post then please order your complete requirement at our Website www.neerajbooks.com where you can select your Required NEERAJ BOOKS after seeing the Details of the Course, Subject, Printed Price & the Cover-pages (Title) of NEERAJ BOOKS.

While placing your Order at our Website www.neerajbooks.com You may also avail the “Special Discount Schemes” being offered at our Official website www.neerajbooks.com.

No need to pay in advance as you may pay “Cash on Delivery” (All The Payment including the Price of the Book & the Postal Charges, etc.) are to be Paid to the Delivery Person at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us. We usually dispatch the books Nearly within 2-3 days after we receive your order and it takes Nearly 3-4 days in the postal service to reach your Destination (In total it take nearly 6-7 days).

Content

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

Question Paper—June-2023 (Solved)	1
Question Paper—December-2022 (Solved)	1
Question Paper Exam Held in July 2022 (Solved)	1
Sample Question Paper-1 (Solved)	1
Sample Question Paper-2 (Solved)	1

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
1.	आधुनिक जापान का मूल आधार (The Roots of Modern Japan)	1
2.	प्रारंभिक आधुनिकता : तोकुगावा काल 1600-1868 (Early Modernity: The Tokugawa Period 1600-1868)	13
3.	मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिक जापान का निर्माण (The Meiji Restoration and the Creation of Modern Japan)	23
4.	मेजी राजनीतिक व्यवस्था (The Meiji Political Order)	35
5.	सभ्यता और ज्ञानोदय : एक नयी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण (Civilization and Enlightenment: Creating A New Social Order)	46
6.	मेजी औद्योगिकरण और विकास (Meiji Industrialization and Development)	57
7.	अन्य स्वर : मेजी नीतियों का विरोध (Other Voices: Opposition to Meiji Policies)	69

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
8.	मेजी जापान : अंतर्राष्ट्रीय समानता की तलाश (Meiji Japan: Seeking International Equality)	80
9.	एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान का उदय (Japan's Emergence as an Economic Power)	91
10.	शाही जनतंत्र और राजनीतिक दल (Imperial Democracy and Political Parties)	102
11.	सैन्यवाद का उदय (Rise of Militarism)	112
12.	जापान : पश्चिम के विरुद्ध औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों को समर्थन (Japan: Supporting Anti-colonial Movements Against The West)	124
13.	जापान का औपनिवेशिक साम्राज्य और उसकी पराजय (Japan's Colonial Empire and its Defeat)	134
14.	जापान : पराजय और मित्र-राष्ट्रों का नियंत्रण (Japan: Defeat and the Allied Occupation)	145



**Sample Preview
of the
Solved
Sample Question
Papers**

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास :
जापान (1868-1945)

B.H.I.E.-142

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945)

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

भाग-I

प्रश्न 1. जापान में तोकुगावा काल पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-16, प्रश्न 1

प्रश्न 2. मेजी राजनीतिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-3, पृष्ठ-37, 'मेजी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति'

प्रश्न 3. मेजी शासन के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण विरोध के स्वरों का वर्णन कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-72, प्रश्न 1, प्रश्न 2, पृष्ठ-74, प्रश्न 3, पृष्ठ-75, प्रश्न 4

प्रश्न 4. निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) अंतर्युद्ध काल में जापान का विदेश व्यापार

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-94, 'अंतर्युद्ध काल में विदेश व्यापार'

(ख) जापानी इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-5, प्रश्न 2

(ग) जापान और पश्चिमी विश्व

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-5, पृष्ठ-46, 'जापान और पश्चिमी दुनिया'

(घ) पूर्वी एशिया का जापान द्वारा उपनिवेशीकरण

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-82, 'पूर्वी एशिया : प्रतियोगी साम्राज्यवाद'

भाग-II

प्रश्न 5. जापान में सैन्यवाद के विकास की विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-108, प्रश्न 1, अध्याय-11, पृष्ठ-120, प्रश्न 1

प्रश्न 6. मेजी अल्पतंत्र के अंतर्गत एक संवैधानिक सरकार की कार्यपद्धति का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-102, 'मेजी शासकों के अधीन संवैधानिक सरकार'

प्रश्न 7. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में उच्च विकास के काल पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-146, 'उच्च विकास का काल'

प्रश्न 8. निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) जापान में साम्राज्यवादी विस्तार की विचारधाराएं

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-139, प्रश्न 4

(ख) अंतर्युद्ध काल में जापान में औद्योगिक विकास

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-91, 'अंतर्युद्ध काल में औद्योगिक विकास'

(ग) जापान में मजदूर संघों का उदय

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-6, पृष्ठ-58, 'मजदूर संघों का विकास'

(घ) 'काले जहाजों' का आगमन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-3, पृष्ठ-23, 'काले जहाजों का आगमन'



QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास :
जापान (1868-1945)

B.H.I.E.-142

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

समय : 3 घण्टे]

[अधिकतम अंक : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड में से कम-से-कम दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

खण्ड - I

प्रश्न 1. किन राजनीतिक और आर्थिक सुधारों ने जापान के आधुनिकीकरण में योगदान दिया?

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-10, प्रश्न 1

प्रश्न 2. जापान में शास्त्रीय काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-1, पृष्ठ-7, प्रश्न 4

प्रश्न 3. मेजी राज्यसत्ता के खिलाफ विरोध और विद्रोहों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-36, 'मेजी राज्य के विरुद्ध विरोध और विद्रोह'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) जापान में जन अधिकार आन्दोलन

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-4, पृष्ठ-39, प्रश्न 5

(ख) तोकुगावा काल में बौद्धिक धाराएँ

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-19, प्रश्न 6

(ग) हिशाबेस्तु बुराकू का संघर्ष

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-7, पृष्ठ-70, 'हिशाबेस्तु बुराकू का संघर्ष : जापान के लेवलर', पृष्ठ-78, प्रश्न 1

(घ) जापान में असमान संधियाँ और आपराधिक कानून का सुधार

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-8, पृष्ठ-83, प्रश्न 1

खण्ड - II

प्रश्न 5. एक आर्थिक शक्ति के रूप में जापान के उदय की विवेचना कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-9, पृष्ठ-94, प्रश्न 1, पृष्ठ-95, प्रश्न 2, पृष्ठ-97, प्रश्न 7

प्रश्न 6. जापानी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-13, पृष्ठ-134, 'साम्राज्यवाद : परिभाषा एवं बहस'

प्रश्न 7. दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत में राष्ट्रवाद के साथ जापान के संबंधों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-12, पृष्ठ-126, 'जापान का दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में आगे बढ़ना'

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) तोकुगावा जापान में संस्कृति

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-2, पृष्ठ-14, 'तोकुगावा जापान में संस्कृति'

इसे भी जोड़ें-शहरी केन्द्रों का बढ़ना तोकुगावा की अर्थव्यवस्था के गतिशील होने का संकेत देता है। 18वीं शताब्दी का अंत होते-होते राजधानी इदो की आबादी लगभग दस लाख हो गयी थी। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, दस्तकार और दुकानदार यहाँ आकर और ओसाका, क्योटो जैसे दूसरे शहरों या कनाजुवा, सेंदाई, कगोशिमा जैसे दुर्ग कस्बों में जाकर बस गये, जिनकी आबादी 50,000 से भी ऊपर थी। सोकाइद्स (पूर्वी समुद्री सड़क), नाकासेदो (पर्वत के मध्य की सड़क), सान्योदो (पर्वतों की धूप वाली तरफ की सड़क) और सनिदो (पर्वत की छाँव वाली तरफ की सड़क) जैसी सड़कों के बनने से व्यापार में बेहतरी आयी।

उभरने वाली शहरी संस्कृति बुनियादी तौर पर व्यापारियों के नेतृत्व वाला आंदोलन था। व्यापारियों (शोनिन) को वैसे तो दूसरों पर निर्भर रहने वाले या परजीवियों के रूप में नीची निगाह से देखा जाता था, लेकिन वे ही जापान के पहले उद्यमी थे। वे कठिन परिश्रम करते थे और उन्होंने एक जीवंत सामाजिक व्यवस्था को विकसित करने में योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर, 1627 में, एक मित्सुई तोशित्सूगा ने इचीगाया के नाम से इदो में एक वस्त्र की दुकान खोली जो बढ़ते-बढ़ते आज मित्सुकाशी के नाम से मित्सुई कंपनी की है।

(ख) राजनीतिक दलों का निर्माण

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-10, पृष्ठ-102, 'राजनीतिक दलों की स्थापना'

(ग) जापान पर तेल आघात का प्रभाव

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-14, पृष्ठ-147, 'तेल आघात और उसके पश्चात् की स्थिति'

(घ) जापान में सैन्य तानाशाही

उत्तर-संदर्भ-देखें अध्याय-11, पृष्ठ-114, 'सेना की तानाशाही', पृष्ठ-121, 'जापान में सैन्यवाद का उदय'

Sample Preview of The Chapter

Published by:



**NEERAJ
PUBLICATIONS**

www.neerajbooks.com

आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

(History of Modern East Asia: Japan (C.1868-1945))

आधुनिक जापान का मूल आधार (The Roots of Modern Japan)



परिचय

यह अध्याय उस पृष्ठभूमि से संबंधित है, जो हमें आधुनिक जापान के इतिहास को समझने में मदद करेगी। हम पूर्वी एशियाई क्षेत्र के भीतर जापान के बारे में और भौगोलिक वातावरण की कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। जापान के इतिहास को जानने के लिए जापान के पक्ष में चार मुख्य कारक थे, जिन्होंने देश के आधुनिकीकरण को तेज किया। जापान का द्वीप भूगोल, एक

केंद्रीकृत सरकार, शिक्षा में निवेश और राष्ट्रवाद की भावना। ये सभी ऐसे कारक थे, जिन्होंने जापान को आधी शताब्दी से भी कम समय में आधुनिक बनाने की अनुमति दी। अपने स्वयं के आधुनिकीकरण पर नियंत्रण करके, नया मेजी शासन अपनी शर्तों पर पश्चिमीकरण कर सकता है, जो सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को जारी रखने की अनुमति देगा। पूर्वी एशिया के विदेशी देशों के साथ संबंधों में पश्चिमी भागीदारी के अतिक्रमण के बीच मेजी की पुनर्स्थापना हुई। मेजी बहाली के तहत लागू किए गए परिवर्तनों की जाँच करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि जापान कैसे इतनी जल्दी आधुनिकीकरण हासिल करने में सक्षम था।

अध्याय का विहंगावलोकन

पूर्वी एशिया और इसके पड़ोसी

भौगोलिक रूप से, ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ यह हैं कि जापान चार मुख्य द्वीपों और अन्य छोटे द्वीपों से बना है, जो भौतिक रूप से महाद्वीपीय मुख्य भूमि से अलग थे, लेकिन इसके प्रभावों से अलग नहीं थे। जापान और मुख्य भूमि के बीच एक समुद्री संबंध था। जापानी द्वीपों में लोगों, विचारों और व्यापार के

प्रवेश के लिए कोरियाई संबंधों को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। पूर्वी चीन सागर को पार करना खतरनाक था, जो सीधे संपर्क और चीन द्वारा आक्रमण की संभावनाओं से अछूता था, जो इस क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। समुद्री मार्ग जापानी द्वीपों को दक्षिण-पूर्व एशिया से भी जोड़ते थे। चीन ने पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। चीनी लोगों की भाषा, विचार और धार्मिक विश्वास जापान, कोरिया और वियतनाम में अनुकूलित किए गए थे।

जापान : भौगोलिक वातावरण

2-5 मिलियन वर्ष पूर्व द्वीपों का निर्माण हुआ है, जो चार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से उत्पन्न हुए थे। इसके कारण कई भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए। एक अस्थिर स्थिति थी, जिसके कारण समय-समय पर आपदाएँ आती थीं, जिससे निवासियों को इन आवर्ती आपदाओं का अनुमान लगाने और उनका सामना करने के लिए सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हिमयुग के हिमनदों ने पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया और चूँकि जापानी द्वीपसमूह विभिन्न अवधियों में महाद्वीपीय मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र के जैविक धन से इसे लाभ हुआ है। जापान प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। जापान का भूभाग 80% पहाड़ी है और पहाड़ों की औसत ऊँचाई 2 से 3,000 मीटर और बहुत खड़ी है। इन पहाड़ों के आर-पार नदियाँ कटी हुई हैं, जिससे जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और परिष्कृत जल प्रबंधन तकनीकों का विकास हुआ है। कृषि का विकास मैदानी इलाकों तक ही सीमित था, इसने वनारोपण की भावना उत्पन्न की। देश की जलवायु परिस्थितियाँ मुख्य रूप से हल्की सर्दियाँ और गर्मियाँ हैं। तट के साथ जलोढ़ मैदानों में सिंचित चावल की खेती प्रमुख मानी जाती है।

जापानी इतिहास के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण

ऐसे कई संसाधन हैं, जिन्होंने जापान के ऐतिहासिक विकास को देखा है, जैसे-पश्चिमी मिशनरी खाते, जापानी लेखन और विशेष रूप से अमेरिकी विद्वानों के एक अन्य स्रोत। 'क्षेत्र अध्ययन' दृष्टिकोण हैं, जिन्हें द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अवधि में अमेरिका में विकसित किया गया था और यह इस विचार पर आधारित था कि एशिया के देश अलग थे और उन्हें अपने समाजों को समझने के लिए दुभाषियों की जरूरत थी। ऐसी कई पौराणिक कथाएँ हैं, जो देश के बारे में भी बताती हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि द्वीपों को देवताओं ने बनाया था और सूर्य देवी ने अपने पोते को देश पर शासन करने के लिए भेजा था। जापान को चीन और अन्य देशों से अलग और श्रेष्ठ रूप में चिह्नित करने के लिए आधुनिक काल में भी मिथकों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे कई स्रोत हैं जो जापान को आधुनिकीकरण करने वाले एकमात्र एशियाई देश के रूप में चित्रित करते हैं। पूर्वी एशियाई क्षेत्र में चीन और चीनी संस्कृति का बहुत प्रभाव था, जिसका अर्थ है कि चीनी प्रभाव ने इस क्षेत्र को स्वरूप प्रदान किया और चीनी भाषा सभ्यता की वाहक और अभिजात वर्ग की भाषा बन गई। जापान ने चीनी भाषा को भी अपनाया और जापानी भाषा एक बहु-अक्षर और संयुग्मित भाषा है और चीनी से बहुत अलग है।

जापानी इतिहास में कालावधिकरण

ऐसे कई सवाल हैं, जो सत्तारूढ़ राजवंशों द्वारा जापानी इतिहास के प्रमुख राजनीतिक वर्गीकरण द्वारा उठाए गए हैं। मानक राजनीतिक विभाजन हियान (794-1180) का शास्त्रीय काल है, जिसने अपनी प्रमुख विशेषताओं के साथ जापानी सभ्यता को दर्शाया। शाही सरकार हियान काल में प्रमुख शक्ति मानी जाती थी, जिसके बाद योद्धा सरकारों की शाही सत्ता बहाल हुई। 1573 से 1603 तक, दाइम्यों घरानों का उदय हुआ, जिन्होंने जापान के बड़े भाग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उस समय के सैन्य संघर्षों के दाइम्यों के बीच सबसे पहले उभरने वाला रूप ओडा नोबुनागा था, जिसके बाद तोयोतोकी हिदेयोशी और उसके बाद तोकुगावा इयासु थे, जिन्होंने तोकुगावा शासन का गठन किया, जो 1603 से 1868 तक चला। यह जापान में अवधिकरण का व्यापक वर्गीकरण है।

एक महत्वपूर्ण स्रोत जो जापानी इतिहास के बारे में बताता है वह पारिस्थितिकी है, जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच प्रमुख संबंध को दर्शाती है। जापान के इतिहास को इतिहासकार कॉनराड टोटमैन ने तीन चरणों में विभाजित किया है-भोजन के लिए घुमन्तू, कृषि तथा औद्योगिक। भोजन के लिए घुमन्तू चरण लगभग 420 बी.सी.ई. तक रहा, जिसने जोमोन और यायोई संस्कृतियों को शामिल किया। कृषि चरण कृषि के उपयोग से चिह्नित था, जो हियान राजवंश से शुरू होकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। औद्योगिक अवधि लगभग 1890 से औद्योगिक समाज के विकास

के साथ शुरू होती है, जो 'मृतकों के कारनामों' पर विकसित होता है।

शास्त्रीय जापान का निर्माण

जापान का शास्त्रीय युग 794 में शुरू हुआ, जब यामातो राज्य ने हियान में अपनी राजधानी बनाई। यह अवधि 794 से 1185 तक थी, जो कि सत्ता योद्धा सरकारों में स्थानांतरित हो गई। इस अवधि के दौरान चीनी प्रभाव, बौद्ध धर्म के माध्यम से, लोगों द्वारा अनुकूलित किया गया और फिर एक शाही राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जहाँ सम्राट ने प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म राजकीय धर्म बन गया और चीनी भाषा को अभिजात वर्ग द्वारा अपनाया गया। वह अवधि जिसे हियान काल कहा जाता है, जिसका नाम राजधानी के नाम पर रखा गया था, चीनी राजधानी छंगान पर आधारित थी। ऐसे कई नियम और विनियम थे, जिन्हें एक सैन्य संगठन बनाने के लिए विकसित किया गया था और सामूहिक रूप से कर संग्रह की एक प्रणाली जिसे रितसूर्यो (दंड संहिता और नागरिक संहिता) प्रणाली के रूप में जाना जाता था। ऐसे कई प्रांत थे, जिनमें देश का विभाजन किया गया था, जिन पर राज्यपालों का शासन था। इस अवधि में जिस क्षेत्र पर शासन किया गया था वह ज्यादातर क्योटो क्षेत्र और क्यूशू के दक्षिणी द्वीप में था, लेकिन सम्राट शोमु ने मुख्य द्वीप होंशू के उत्तरी क्षेत्र तोहकू में सेना भेजना शुरू कर दिया और 1725 तक इस क्षेत्र को आधुनिक समय के सेंडाई तक शांत कर दिया। इस सिद्धांत को हर किसी ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि एमीशी जोमोन संस्कृति के लोग थे, जिन्हें उत्तर की ओर धकेल दिया गया था तथा यायोई लोगों ने जापान के मुख्य द्वीपों पर कब्जा कर लिया था।

सी. केमरोन हर्स्ट जैसे विद्वानों ने घोषणा की कि हियान काल को दो अवधियों में विभाजित किया जाना चाहिए, दसवीं शताब्दी तक की प्रारंभिक अवधि जब तांग मॉडल के तत्व प्रभावी थे, लेकिन सामंती प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी और दूसरा भाग, जिसमें इन सामंती विशेषताओं को मजबूत होते देखा गया। ऐसे कई विद्वान हैं जिनका मत था कि सम्राट और कुलीन वर्ग ने अपनी शक्ति को बाहरी हितों के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि कुलीनों ने एक शाही दरबार राज्य का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ राजनीतिक कर्तव्यों का अनुबंध किया।

हियान काल की संस्कृति-हियान संस्कृति ने अत्यधिक परिष्कृत सौंदर्य दर्शन का निर्माण किया। इस काल में भौतिक जीवन अत्यंत सरल और तपस्वी था। लोग चावल, सब्जियां खाते थे और बहुत कम मांस या मछली खाते थे। चाय का उपयोग मुख्य रूप से दवा के रूप में किया जाता था और बैलगाड़ी परिवहन का प्रमुख साधन था। राज्य का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था और शिन्तो बौद्ध धर्म का एक भाग बन गया था, जो पहले की लोकप्रिय धार्मिक प्रथाओं का पूरा समुच्चय था।

साइको की शिक्षाएं लोटस सूत्र पर आधारित थीं, जिसका अर्थ था कि कार्य, ध्यान और विश्वास से ज्ञान प्राप्त हुआ। ये संप्रदाय नौवीं और दसवीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए और हेनियन अभिजात वर्ग के बीच उनका पक्ष लिया। कुछ नए आंदोलन थे जो इस अवधि के दौरान विकसित हुए, जैसे-जैन, जोडो और निचिरेन आदि।

प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ : सम्राट, धार्मिक समूह और योद्धागण

शाही राज्य की शक्ति अधिक समय तक नहीं रही क्योंकि इसने धीरे-धीरे भूमि और कुलीन परिवारों और बौद्ध मठों को राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया। कुलीनों और बौद्ध मठों ने भूमि सम्पदा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और करों को एकत्र किया तथा अपनी सेनाएँ खड़ी कीं और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए। शाही राज्य का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था और 1150 तक अपने नेताओं के प्रति वफादारी के कारण समुराई या योद्धा समूहों का उदय हुआ। समूहों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से संगठित किया गया था और वे अपने नेताओं के प्रति रिश्तेदारी और वफादारी से बंधे थे।

जापानी विद्वान कुरोदा तोशियो के अनुसार, 11वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य सत्ता को एक साथ काम करने वाली तीन शक्तियों में विभाजित किया गया था। कुरोदा द्वारा पहचाने गए परिवारों के तीन समूह थे-दरबारी (कुगे), योद्धा (बुके या समुराई) और धार्मिक संस्थान (जिशा)। इन तीनों समूहों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंग के रूप में देखा गया। विद्वानों का मत था कि कामकुरा काल हियान काल से एक संक्रमण था और एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब केनमू शासन और आशिकागा ने एक नए प्रकार का शासन शुरू किया।

दाइम्यों ने अपने नियंत्रण का विस्तार करने के बजाय अपने शासन को सशक्त करने पर ध्यान दिया। ऐसे नेताओं का उदय हुआ, जो जापान को एकजुट करेंगे। धार्मिक संस्थान राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और राजनीति आधुनिक काल की तरह अलग तत्व नहीं थी। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र क्योटो के पास माउंट हाईई में थे, जो तेंदाई संप्रदाय से संबंधित थे, नारा जहाँ कोफुकुजी और टोडाईजी के प्रमुख मंदिर स्थित थे और उन संप्रदायों का प्रभुत्व था। जो अधिक दार्शनिक थे और अभिजात वर्ग और माउंट कोया से अपील करते थे। जैन तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदायों सोटो और रिनजाई में विभाजित था, जिसे कोअन या पहलियों के रूप में अभ्यास की मदद से कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान किया गया था, जिसने अनुयायियों को उनकी धारणाओं के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया।

दाइम्यों का उदय : ओड़ा नोबुनागा

15वीं शताब्दी के अंत से युद्ध लगातार होते रहे। वहाँ सरकार प्रतिस्पर्धी रूपों में थी और शाही घराने हाशिए पर थे। सामंती

संबंधों से बंधे समुराई अनुचर वे प्रमुख ताकतें थीं, जो सत्ता और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं। इन्हें समूह धार्मिक समूह थे, जो समुराई की तरह समानता और पदानुक्रम के सिद्धांतों पर आधारित थे। इस अवधि में अर्थव्यवस्था और संस्थानों में वृद्धि देखी गई, जिन्होंने कुछ हद तक परिष्करण विकसित किया। स्थिति अस्थिर थी और तीन व्यक्तित्व जो धीरे-धीरे मुख्य द्वीपों को अपने नियंत्रण में लाए थे-ओड़ा नोबुनागा (1543-82), तोयोतोमी हिदेयोशी (1537-98) तथा तोकुगावा इयासू (1543-1616)। 1568 में, ओड़ा नोबुनागा ने सम्राट को आशिकागा योशिकाकी (1537-1597) को मान्यता के लिए मजबूर किया और फिर जब शोगुन ने विघटनकारी साबित कर दिया तो उसे बाहर निकाल दिया। नोबुनागा ने बड़े क्षेत्रों और दाइम्यों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। नोबुनागा ने अक्टूबर 1571 में हिजेन के तेंदाई बौद्ध मठ को नष्ट कर दिया। नोबुनागा ने बौद्ध धर्म के जोड़ों शिशु संप्रदाय के सशस्त्र लोगों से भी लड़ाई लड़ी, ओसाका में इशियामा होंगानजी के मंदिर के आसपास केंद्रित इक्को-इक्की से भी लड़ाई लड़ी और उन्हें कुचल दिया। नोबुनागा योद्धाओं या समुराई को किलेबंद कस्बों में ले आया, जो उभरते शहरों के केंद्र का निर्माण करने वाले थे। इससे सैन्य जमींदार अभिजात वर्ग की स्वतंत्र शक्ति में कमी आई। उन्होंने बाट और माप में एकरूपता लाने का भी प्रयास किया।

हिदेयोशी : एक सामान्य जन जो जापान का शासक बन गया

वर्ष 1582 में नोबुनागा की हत्या कर दी गई और फिर हिदेयोशी (1536-1598) जापान को एकजुट करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरा। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी क्षमताओं के माध्यम से देश का शक्तिशाली शासक बन गया और शिबाता काटसुई जैसे अन्य दाइम्यों दावेदारों को हराने में कामयाब रहा और 1585 में सम्राट ने खुद को कमपाकू (राज्य संरक्षक) नियुक्त किया। 1588 में उन्होंने किसान को सैनिक से स्पष्ट रूप से अलग करने के उद्देश्य से एक क्रूर तलवारबाजी आखेट शुरू किया। जिस वर्ग को तलवार ले जाने की अनुमति थी, वह समुराई था। वर्ष 1590 में एक भूमि सर्वेक्षण में मुक्त कृषक के नाम पर खेतों को दर्ज किया गया, इससे भूमि के मालिक और करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान हो गई। हिदेयोशी ने विश्व विजय का सपना देखा था, जिसने 1592 में कोरिया पर एक असफल आक्रमण शुरू किया था, लेकिन कोरियाई और चीनी से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उसे अपना आक्रमण रोकना पड़ा।

तोकुगावा की शक्ति का उद्भव

हिदेयोशी की मृत्यु के बाद, तोकुगावा इयासु सबसे मजबूत दाइम्यों था, जो किसी भी अन्य दाइम्यों से दोगुना बड़ा था। तोकुगावा इयासु नोबुनागा के समय से ही पूर्वी जापान में प्रमुख था और हिदेयोशी के साथ उसके संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए,

4 / NEERAJ : आधुनिक पूर्वी एशिया का इतिहास : जापान (1868-1945)

लेकिन दोनों ने समझा कि टकराव उचित नहीं है। हिंदेयोशी की मृत्यु के बाद कायम किया ने अन्य दाइम्यों के साथ गठबंधन करके अपना वर्चस्व बनाया और उन्होंने 20 अक्टूबर, 1600 को शेकीगहरा के क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया। तोकुगावा इयासु को 1603 में शोगुन नियुक्त किया गया था।

बर्बर लोगों या एमीशी को नियंत्रित करना

ऐनू पंद्रहवीं शताब्दी तक अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम थे, लेकिन सोलहवीं शताब्दी से तोहोकू क्षेत्र के शासकों ने होकाइडो नामक क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। शासकों ने इयासु के शासन को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर मात्सुमे रख लिया, जिससे दक्षिण होकाइडो में उनके किलेबंद शहर का नाम पड़ा। संघर्ष और बीमारी के कारण जनसंख्या कम हो गई और ईदो शासन मात्सुमे तक बढ़ा और मात्सुमे ने ऐनू के साथ संबंधों को मजबूत किया। ईदो और रयुकू द्वीपों के बाहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों के पैटर्न का यही मॉडल स्थापित किया गया था।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. जापान को आकार देने में भौगोलिक पर्यावरण की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

उत्तर—जापान की पारंपरिक संस्कृति और प्रारंभिक इतिहास को आकार देने में भौगोलिक वातावरण द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। जापान की समशीतोष्ण जलवायु, प्रचुर मात्रा में वर्षा, और वर्तमान टोक्यो, नागोया और ओसाका के पास समृद्ध जलोढ़ मैदान पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के पक्षधर थे। कभी-कभी अपने पूर्व इतिहास के दौरान, शायद यायोई अवधि (300 ईसा पूर्व-300 सीई) के दौरान, जापान ने चीन से सिंचित चावल कृषि की तकनीक को एशिया के अधिकांश हिस्सों में आयात किया।

इस विधि से धान की खेती करने के लिए धान के बीजों को छोटी-छोटी क्यारियों में बोया जाता है। फिर रोपाई को एक-एक करके तैयार धान के खेत में प्रत्यारोपित किया जाता है। जबकि पौधे परिपक्व हो रहे हैं, उन्हें सिंचित रखा जाना चाहिए, लेकिन जैसे-जैसे चावल पकते हैं, खेतों को सुखा दिया जाता है। इसके बाद चावल को काटा जाता है। सिंचित चावल की खेती के लिए बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही तेज गर्म धूप की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए अपेक्षाकृत समतल, उपजाऊ भूमि, सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में और भरोसेमंद पानी की आपूर्ति और एक विश्वसनीय श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। जापानी संस्कृति आज भी उन मूल्यों और संस्थानों को दर्शाती है, जो जापान के प्रारंभिक कृषि संगठन से विकसित हुए हैं।

जापान एक शिमागुनी (द्वीप देश) है—जापानी द्वीपसमूह (द्वीप श्रृंखला) में चार मुख्य द्वीप हैं—होंशी, शिकोकू, उशु और

होकाइडो और आसपास के हजारों छोटे द्वीप। यह एशियाई मुख्य भूमि के प्रशांत तट पर स्थित हैं। निकटतम बिंदु पर, मुख्य जापानी द्वीप मुख्य भूमि से 120 मील दूर हैं। इसकी तुलना एक अन्य शिमागुनि, ग्रेट ब्रिटेन से करें, जो यूरोप से केवल 21 मील की दूरी पर, इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे बिंदु पर है। जापानी द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 142,000 वर्ग मील है। विशाल एशियाई मुख्य भूमि या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलना करने पर यह एक बहुत छोटा देश है, जहाँ यह एकल, हालाँकि बड़ा, लेकिन कैलिफोर्निया राज्य से छोटा है। यह तब और भी छोटा लगता है, जब आपको पता चलता है कि इसकी जमीन का कितना कम हिस्सा कृषि या आवास के लिए उपयोगी है।

जापानी द्वीप पहाड़ों से आच्छादित हैं, उनमें से अधिकांश भारी वनाच्छादित हैं और छोटी, तेज नदियों द्वारा क्रॉस किए गए हैं। केवल कुछ नदियाँ नौगम्य हैं। जापान की अपेक्षाकृत कम भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, केवल लगभग 15 प्रतिशत, वही भूमि जो रहने के लिए भी सबसे उपयुक्त है। इसलिए जनसंख्या और कृषि के क्षेत्र एक साथ केंद्रित हैं।

जापान के द्वीप बहुत सुंदर और विविध हैं, लेकिन वे अविश्वसी भी हो सकते हैं। भूकंप और एक दोष के परिणामस्वरूप आम होते हैं, जो प्रशांत महासागर को घेरता है, जिससे उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी भूकंप आते हैं। वे जापान में अक्सर आते हैं, जितना उन्हें महसूस किया जाता है उससे अधिक बार होता है। कभी-कभी वे गंभीर नुकसान करते हैं। जापान के पहाड़ों में दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों का 10 प्रतिशत हिस्सा है। माउंट फूजी, जापान का सबसे प्रसिद्ध पर्वत और इसके सबसे सुंदर और सम्मनित में से एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जो आखिरी बार 1707 में फूटा था। ज्वार की लहरें कभी-कभी समुद्र के नीचे के भूकंपों से उत्पन्न होती हैं और टाइफून कभी-कभी जापान से टकराते हैं, क्योंकि वे दक्षिण प्रशांत से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हालाँकि, जापानी अपने खतरों की तुलना में अपनी भूमि की सुंदरता और समृद्धि से अधिक प्रभावित हैं। हालाँकि इसकी स्थलाकृति कठिनाइयाँ पैदा करती है, लेकिन इसकी जलवायु अधिक उदार है। जापानी द्वीप समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिकांश भाग के लिए हैं और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के समान अक्षांशों में उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। उत्तर में लगभग 45 डिग्री से लेकर दक्षिण में लगभग 20 डिग्री तक। राजधानी, टोक्यो, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजिल्स या वाशिंगटन के समान स्थिति में है।

लेकिन केवल अक्षांश और देशांतर ही ऐसी चीजें नहीं हैं, जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। दक्षिण की ओर से कुरोशियो और त्सुशिमा जैसी महासागरीय धाराएँ, द्वीपों के प्रशांत पक्ष और कोरियाई जलडमरूमध्य के पास, विशेष रूप से दक्षिण की ओर गर्म करती हैं, जबकि ठंडी कुरील धारा, होकाइडो की ओर दक्षिण की ओर